

कमिशनर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः-

श्री दीपक कुमार ,कमिशनर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :-

सर्वश्री त्रिलोकपति स्ट्रॉबरल्स लिंग ,ए-६/५ साइट-४ ,इण्डस्ट्रियल

एरिया साहिबाहाबाद ,जिला गाजियाबाद ,उत्तर प्रदेश ।

प्राप्तोपर्याप्ति-

31/6/2008

प्रार्थी की ओर से- श्रीपी०आर०मलिक ,अधिवक्ता व श्री एस०सी०जैन, जनरल मैनेजर ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-५९ के अन्तर्गतनिर्णय

१- प्रार्थी के द्वारा दिनांक ०१-७-२००८ को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, २००८ की धारा-५९ के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें **LLDPE plastic container** जिनको सामान्यतः **Water Storage Tanks.** के रूप में जाना जाता है पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

२- धारा-५९ के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री पी०आर०मलिक ,अधिवक्ता व श्री एस०सी०जैन, जनरल मैनेजर उपस्थित हुये , धारा-५९ के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व बताया कि Water Storage Tanks. वैट अधिनियम की अनुसुची -२ के भाग-क के क्रमांक ९० पर अंकित प्रविष्टि के अन्तर्गत व वैट अधिनियम की अनुसुची -२ के भाग-ग के क्रमांक १७४ पर अंकित प्रविष्टि में आते हैं अतः इस पर ४प्रतिशत की दर से कर देयता होनी चाहिए।

३- मैंने व्यापारी के धारा-५९ के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों व विद्वान अधिवक्ता व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों का परिशीलन किया। वैट अधिनियम की अनुसुची -२ के भाग-ग के क्रमांक १७४ पर निम्न प्रविष्टि अंकित है :-

174	Articles for the packing of goods of plastics, namely , crates, containers, carboys, bottles, jars, jerry canes and their stoppers, lids, caps of plastic but not including insulated wares, natural rubber, balata, gutta percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strips, synthetic rubber and factice derived from oils in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product, reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip, compounded rubber unvulcanized in primary forms or in plates, sheets or strip.
-----	---

वैट अधिनियम की अनुसुची -२ के भाग-क के क्रमांक ९० पर निम्न प्रविष्टि अंकित है:-

90.	Packing cases and packing materials including cork, cork sheets, gunny bags, HDPE/PP woven strips, HDPE/PP circular strips and woven fabrics; Hessian cloth, Hessian based paper, Polythene and Hessian based paper; high density polythene fabric based paper and bituminized water proof paper, jute twine; polythene and plastic bags including LDPE plastic bags for milk pouches; Tin containers, shooks, tea chests, waste paper, wooden boxes, wooden shavings, wooden crates, wooden cable drums, all types of ropes and strings, envelopes. Explanation:- planks, penals, battens, when assembled will form tea chest or packing cases will come under packing cases for the purpose of this entry.
-----	---

उपरोक्त दोनों प्रविष्टियों में plastic Tanks. सम्मिलित नहीं है। सर्वश्री मेटाडोर फोम प्राप्तोपर्याप्ति, एफ-१०-सी, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया ,साइट-११ ,कानपुर (प्रार्थना पत्र संख्या- १४५/०८)के बाद में धारा-५९ के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक २५-६-०८ में plastic

सर्वश्री त्रिलोपति स्ट्रॉकचरल्स लिंग ,ए-६/५ साइट-४ ,इण्डिस्ट्रियल एरिया, साहिबाहाबाद ,जिला
गाजियाबाद ,उठापो/प्रापो सं-३१६/२००८

Water Storage Tanks. वैट अधिनियम की अनुसुची- 1,2,3,4 में वर्गीकृत न होने के कारण अनुसुची-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। अतः plastic Water Storage Tanks. पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-५९ के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारिक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: ११,अगस्त ,२००८

हो ११.८.०८

(दीपक कुमार)

विभिन्न वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

प्रस्तुति

मुख्यमन्त्री

बाणिज्य कर नियम विभाग

